



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 356] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 1976/कार्तिक 10, 1898

No. 356] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 1976/KARTIKA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st November 1976

G.S.R. 861(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 208/76-Central Excises, dated the 1st July, 1976, the Central Government hereby fixes a tariff value of one hundred and Thirty-five rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*:

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 266/76-CE]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1976

सां. कां. निं. 861(घ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के (राजस्व और बैंककारी विभाग) की तारीख 1 जुलाई, 1976 की अधिसूचना सं० 208/76-के० उ० शु० को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद सं० (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए तीन सौ पैंतीस रुपये प्रति क्विंटल मूल्य एतद्वारा नियत करती है ।

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन की जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी ।

[सं० 266/76-के० उ० शु०]

G.S.R. 862(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 34% *ad valorem*.

This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th November, 1976.

[No. 267/76-CE]

G. S. MAINGI, Under Secy.

सां. कां. निं. 862(घ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आनेवाली चीनी को, उस पर उद्ग्रहणीय उत्पादनशुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जितना मूल्यानुसार 34 प्रतिशत से अधिक हो ।

2. यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1976 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी ।

[सं० 267/76-के० उ० शु०]

जी० एस० मैगी, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976